



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30—फरवरी 5, 2010 (माघ 10, 1931)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30—FEBRUARY 5, 2010 (MAGHA 10, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. आरएस/42/2/2010/3—कार्मिक--केपेसिटी फॉर अफगान पब्लिक सर्विस (सीएपी) प्रोजेक्ट के लिए त्रिपक्षीय समझौते (भारत सरकार-अफगानिस्तान सरकार-यूएनडीपी) के अधीन अफगानिस्तान सरकार के कोच/सलाहकार के पद से कार्यमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री प्रदीप चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक ने 12 जनवरी, 2010 के पूर्वान्त से इस सचिवालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. आरएस/43/(ix)/2005/4—कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 7 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस/43 (ix)/2005/1—कार्मिक के क्रम में, राज्य सभा के सभापति ने श्री संजय सिंह, आईपीएस (एजीएमयू : 1990) की इस सचिवालय में निदेशक

(सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 16 जनवरी, 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

सं. पीएफ-970-आर(3)/जीएन-6359/एएन-I/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती पुष्पा बत्रा, निदेशक (पीएसएस) 31.12.2009 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-1320-आर(3)/जीएन-6360/एएन-I/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पी. महान्ति, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 31.12.2009 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. एफ-22/1/जीएन-6365/2010/एएन-1--श्री पवन कुमार झा की संसदीय भाषान्तरकार ग्रेड-II के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि 28.04.2009 से 27.04.2010 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 मई, 2007 की अधिसूचना सं. एफ. 15/7/जीएन-5889/एएन-1/2007 के क्रम में है।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जनवरी 2010

सं. ए-19018/01/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में श्री पंकज जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जम्मू और कश्मीर : 1978) को दिनांक 4 जनवरी, 2010 के अपराहन से अगले आदेशों तक अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राम मोहन, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

कोलकाता-700001, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

सं. जी-19031/(2)/2009/प्रशा. कोल.--विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता में सहायक विधि सलाहकार पद पर कार्यरत श्री पवित्र रंजन बनर्जी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2009 के अपराहन से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एस. भट्टाचार्य, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/का.प्र.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. पी.एफ./जी/213-प्रशा.-V--राष्ट्रपति, श्री रमेश बाबू अणियेरी को दिनांक 09.11.2009 (पूर्वाह्न) से 37,400—67,000/- रुपये के वेतन बैंड तथा 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर एक वर्ष के लिए राजभाषा विभाग में निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करती है।

अरविंद मुखर्जी, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 14034/27/2009-रा.भा.(प्रशि.)-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री यशवंत माटे को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पे बैंड-3 के रुपये 15,600—39,100/- के ग्रेड पे रु. 5,400/- में दिनांक 30.11.2009 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14034/27/2009-रा.भा.(प्रशि.)-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री घनश्याम प्रसाद नामदेव को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पे बैंड-3 के रुपये 15,600—39,100/- के ग्रेड पे रु. 5,400/- में दिनांक 09.11.2009 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14034/27/2009-रा.भा.(प्रशि.)-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री विक्रम सोनी को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पे बैंड-3 के रुपये 15,600—39,100/- के ग्रेड पे रु. 5,400/- में दिनांक 06.11.2009 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14034/27/2009-रा.भा.(प्रशि.)-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री अनिल कुमार साहू को सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर पे बैंड-3 के रुपये 15,600—39,100/- के ग्रेड पे रु. 5,400/- में दिनांक 24.11.2009 (अपराह्न) से राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. 13/29/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री जोगिन्दर पॉल शर्मा भा.प्र.से. (उ.प्र.-81) को दिनांक 12.01.2010 (पूर्वाह्न) से 10.01.2012 तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए रुपये 37,400—67,000/- (पीबी-4) के पे बैंड में 10,000/- रुपये के ग्रेड पे सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. 13017/15/2009-अ.भा.से.-(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पश्चिमी बंगाल और पंजाब की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री नीलिमा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पं. बंगाल : 08) को श्री अमित कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब : 08) के साथ विवाह के आधार पर पश्चिम बंगाल संवर्ग से पंजाब संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

कर्मचारी चयन आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. ए-24012/2/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, के.स.से. संवर्ग के निम्नलिखित अवर सचिवों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा.सं. 4/4/2008-सी.एस.-I(घ) और दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2009-सी.एस.-I(घ) और 30 अक्टूबर, 2009 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2009-सी.एस.-I(घ) के तहत वर्ष 2005 और 2007 के लिए उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव ग्रेड) के चयन ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, नियमित आधार पर के.स.से. के चयन ग्रेड अधिकारियों (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन ग्रेड की चयन सूची	पदभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	2005	01.09.2009 (पूर्वाह)
2.	श्री शिव कुमार	2007	13.10.2009 (पूर्वाह)
3.	श्री ए. के. शर्मा	2007	30.10.2009 (पूर्वाह)

2. ये अधिकारी एफ आर-22(1)(क)(i) के अंतर्गत नियमित आधार पर उप सचिव का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने वेतन निर्धारण के लिए हकदार होंगे। तथापि, ये अधिकारी चयन सूची वर्ष की प्रथम जुलाई से सैद्धांतिक वेतन निर्धारण के लिए पात्र हैं।

आर. के. गंभीर, अवर सचिव (प्रशा.)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. 01/पीए-II/2010--विदेश मंत्रालय के विधिक एवं संधि प्रभाग में विधिक अधिकारी (ग्रेड-I) डॉ. पी. के. चौधरी का नाम निदेशक (एल और टी) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, डॉ. पी. के. चौधरी को 6 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह से वेतन बैंड-4, 37,400—67,000/- रुपये + ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये के विदेश मंत्रालय विधिक एवं संधि प्रभाग में निदेशक (एल और टी) के पद पर तैनात करती हैं।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. 02/पीए-II/2010--विदेश मंत्रालय के विधिक एवं संधि प्रभाग में विधिक अधिकारी (ग्रेड-II) श्री लूथर मार्क रंगरेजी का नाम विधिक अधिकारी (ग्रेड-I) के ग्रेड में पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री लूथर मार्क रंगरेजी को 6 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह से वेतन बैंड-3, 15,600—39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन

7,600/- रुपये में विदेश मंत्रालय विधिक एवं संधि प्रभाग में विधिक अधिकारी (ग्रेड-I) के पद पर तैनात करती हैं।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2009

सं. ए-19011/01/2009-पी ए--राष्ट्रपति, श्री के. वी. उन्नीकृष्णन को 5 जून, 2009 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं। श्री के. वी. उन्नीकृष्णन, की अवर सचिव के स्तर में नियुक्ति उनके मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए होगी।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2009-पी ए--राष्ट्रपति, श्री पी. जे. थम्पी को 5 जून, 2009 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) का सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं। श्री पी. जे. थम्पी की वैयक्तिक सहायक के स्तर में नियुक्ति उनके मंत्री जी के सहायक निजी सचिव के पद पर रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए होगी।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2009-पी ए--राष्ट्रपति, श्री ए. वाई. आनन्द राज को 9 जून, 2009 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करते हैं। श्री ए. वाई. आनन्द राज की निजी सचिव के स्तर में नियुक्ति उनके मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए होगी।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2009-पी ए--राष्ट्रपति, श्रीमती साधना शंकर भा. रे.से. (आई.टी. : 87) को 5 जून, 2009 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं। निदेशक के स्तर पर श्रीमती साधना शंकर की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने से लेकर 4 वर्ष 4 माह और 10 दिन अथवा जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगी अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए होगी।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

सं. ए-19011/01/2009-पी ए--राष्ट्रपति, श्री वी. एन. अजयाप्पन को 5 जून, 2009 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) का सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं। एक गैर-सेवा कार्मिक श्री वी. एन.

अजयाप्पन की प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वयलार रवि) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्ति मंत्री जी के विवेकानुसार और उनके मंत्री पद पर रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए होगी।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. 1/2010 (फा. सं. ए-19011/1/2010-प्रशासन-I ग)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एस. के. गौले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त को सदस्य (तकनीकी) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेस्टेट) कोलकाता के सदस्य के रूप में दिनांक 30.12.2009 (पूर्वाह) से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. ए-12011/8/2009-प्रशा.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के का. जा. सं.-5/8/2009-सीएस-I(यू) के तहत परिचालित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) की प्रवर सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित आधार पर प्रवर सूची वर्ष के 1 जुलाई से और अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	सीएसएस सं.	प्रवर सूची वर्ष
(सर्वश्री)			
1.	चानन राम	5185	2004
2.	सतीश कुमार भूषण	5186	2004
3.	सौम्या चट्टोपाध्याय	4645-ए	2005
4.	ए. के. श्रीवास्तव	5257	2005
5.	ओ. पी. कनैजिया	6224	2005
6.	अनुराग रोहतगी	5470-ए	2007

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में उल्लिखित अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता, प्रवर सूची में दी गई क्रम संख्या के अनुसार होगी चाहे उनकी उस ग्रेड में नियुक्ति की वास्तविक तिथि जो भी हो, नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में उपर्युक्त प्रवर सूची

में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं. 13352/2005; केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ नामक ओ. ए. सं.-3294/2009 तथा श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ व अन्य नामक ओ. ए. सं.-2674/2009 में अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. ए.12011/2/2009-प्रशा. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2009-सीएस-1(डी) के तहत वर्ष 2005 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, और इस विभाग की दिनांक 19.02.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में राष्ट्रपति, श्री प्रान कुमार शर्मा (सीएसएस सं. 3715), उप सचिव (सेवानिवृत्त) को नियमित आधार पर 1 जुलाई, 2005 से और अगले आदेशों तक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2010

सं. 11012/1/2008-आईईएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2008 में सफलता प्राप्त करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 2008 के यथासंशोधित नियम 6(क) के अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा में कनिष्ठ समयमान में पे बैंड-3, 15,600—39,100/- रुपए + ग्रेड पे 5400/- रु. के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1. श्री अबिनाश दास	04.01.2010 (पूर्वाह)
2. श्री जितेंद्र असती	04.01.2010 (पूर्वाह)
3. श्री गौरव भाटिया	04.01.2010 (पूर्वाह)
4. श्री शीलेश नवल	04.01.2010 (पूर्वाह)
5. सुश्री पूजा रुस्तगी	04.01.2010 (पूर्वाह)
6. श्री करनजीत सिंह एनगंगबम	04.01.2010 (पूर्वाह)
7. श्री मुदित सक्सेना	04.01.2010 (पूर्वाह)
8. सुश्री रितिका नरुला	04.01.2010 (पूर्वाह)
9. सुश्री रेणु यादव	04.01.2010 (पूर्वाह)
10. श्री मुकेश कुमार	04.01.2010 (पूर्वाह)
11. श्री संजीव कुमार	04.01.2010 (पूर्वाह)
12. श्री जगदीश कुमार	04.01.2010 (पूर्वाह)
13. श्री सौगेरेंग खुपबोई एमोल	04.01.2010 (पूर्वाह)
14. सुश्री मोनिका सिंह	04.01.2010 (पूर्वाह)

राजन कुमार, सलाहकार (आईईएस)

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

सं. ए-2/ए के पी/99-क.नि.ए.--श्री ए. के. पुरी, उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 दिसम्बर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. इसी तारीख से उनका नाम एकक के पत्रक से काट दिया जाएगा।

बी. एल. शर्मा, उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2010

सं. ए-12026/3/2003-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री एस. मोहन (भा.ला.ले. से.: 91), निदेशक (लागत) को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-4 (पी.बी.-4) में 23 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए 22 दिसम्बर 2010 के अपराह्न तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

सं. 31 (ए-19011/19/2007-ई.1)--राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कार्यरत श्री आर. गोपालन, भा.प्र.से. (टीएन: 76), अपर सचिव को उनके पद का अस्थायी उन्नयन करके दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में स्वस्थानी पदोन्नति पर विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जनवरी 2010

सं. ए-23011/4/2007-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय श्री ए. के. चंदवानी को दिनांक 30.12.2009 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड-पे 7,600/- रुपए में वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए उर्वरक संवर्ग में नियमित आधार पर सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 22.7.2009 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सीएस-II में निहित निर्देशों और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

के दिनांक 29.12.2009 के का.ज्ञा. सं. ए-19011/2/2005-प्रशा.-I के अनुसरण में है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. ए-12011/10/2009-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सी एस-I(यू) के तहत वर्ष 2007 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अवर सचिव की चयन सूची में नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग के केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को 1 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से उपभोक्ता मामले विभाग में चयन सूची वर्ष 2007 में से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती है:--

क्र.सं.	सीएसएल सं.	नाम
---------	------------	-----

1.	5782	श्रीमती प्रेमा भट्ट
----	------	---------------------

2.	5826	श्री किशन पाल
----	------	---------------

2. उक्त नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी 13352/2005; केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ ओ ए सं. 3294/2009 और पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ तथा अन्य ओ ए सं. 2674/2009 में अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. ए-19013/01/2008-स्था.--वर्ष 2009 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में श्री मधुसूदन चौपड़ा का नाम सम्मिलित किए जाने व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/1/2009 सीएस I(डी) दिनांक 16.12.2009 के द्वारा नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक के रूप में प्रोन्नति किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति जी श्री मधुसूदन चौपड़ा, उप-सचिव को उप-सचिव के पद के व्यक्तिगत उन्नयन द्वारा दिनांक 16.12.2009 (पूर्वा.) से उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख अर्थात् 31.03.2010 तक, निदेशक के पद पर पे बैंड (रु. 37,400--67,000/-) ग्रेड वेतन रु. 8,700/- सहित, में नियुक्त करती है। तत्पश्चात् यह पद उप-सचिव स्तर पर प्रवर्तित रहेगा।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2009

सं. ए. 11014/01/2008-सी एच एस-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. डी. सी. जैन को 25.11.2009 के पूर्वाह्न से

अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की विशेष स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक, शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्त करती हैं।

वी. पी. राना, अवर सचिव

सं. ए. 11014/01/2008-सी एच एस-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शिव लाल को 25.11.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की विशेष स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक, लोक स्वास्थ्य के पद पर नियुक्त करती हैं।

वी. पी. राना, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. ए. 12025/35/2006-सी एच एस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गुरुएरिबम सुनीलकुमार शर्मा को 26 मई 2007 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग में न्यायिक चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करती हैं।

वी. पी. राना, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. ए. 12025/22/09-सी एच एस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दुर्गा करकी को 5.10.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्लास्टिक सर्जरी की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

वी. पी. राना, अवर सचिव

सं. ए. 12025/23/09-सी एच एस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुनिल शर्मा को 23.11.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में प्लास्टिक सर्जरी की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

वी. पी. राना, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2010

सं. ए. 19014/13/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, वर्ष 2007 संबंधी सीएसएस की चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची में श्री एन. सत्यन का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप श्री एन. सत्यन को दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं। श्री एन. सत्यन की उप सचिव के पद पर नियुक्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के एक पद

का उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक उप सचिव स्तर पर व्यक्तिगत उन्नयन करके की गई है।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2010

सं. 19012/10/2007-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तरीय अधिकारी श्री अंजन कुमार जेना को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 11 दिसम्बर, 2009 के अपराह्न से 37,400--67,000/- रुपए (पे बैंड-4) तथा 10,000/- रुपए ग्रेड पे में सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 19012/1/2010-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईएसएस) की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) स्तरीय अधिकारी श्रीमती हरिता सभरवाल को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 17 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपए (पे बैंड-3) तथा 7,600/- रुपए ग्रेड पे में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 19012/2/2010-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईएसएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तरीय अधिकारी श्री बी. गंगैया को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से 37,000--67,000/- रुपए (पे बैंड-4) तथा 10,000/- रुपए ग्रेड पे में सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 19012/03/2010-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईएसएस) के कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) स्तरीय अधिकारी श्रीमती स्वर्ण शर्मा को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 27 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपए (पे बैंड-3) तथा 5,400/- रुपए ग्रेड पे में तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. 19012/2/2010-ई.ए.--श्री बी. गंगैया, सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की नियुक्ति के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग

की दिनांक 12 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या-19012/2/2010-ई. ए. में पे-बैंड रुपए 37,000--67,000/- (पे बैंड-4) को 37,400--67,000/- रुपए (पे बैंड-4) पढ़ा जाए।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 19012/04/2010-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सीएसजी) स्तरीय अधिकारी श्री बट्टी सिंह भण्डारी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 16 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से 37,400--67,000/- रुपए (पे बैंड-4) तथा 10,000/- रुपए ग्रेड पे में सलाहकार के पद पर नियुक्त करती है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जनवरी 2010

सं. 2(20)/2009-का.1--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्री बी.पी. सिंह, दस्तकार 'एफ', सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पदोन्नत होने पर दिनांक 01.12.2009 के पूर्वाह्न से 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एसबी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर एनआईसी द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. पीएफ/4733/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री विजय आनन्द आर., वैज्ञानिक "सी" कर्मचारी कोड सं. 4733, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली का दिनांक 18.10.2009 को देहांत हो गया है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशा.-I)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

सं. ए-35018/08/2009-प्रशा-1--राष्ट्रपति, श्री जे. पी. सिंह, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरेट में निरीक्षक को, दिनांक 02.07.2009 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय राज्यमंत्री (श्री सुल्तान अहमद) के कार्यालय में पीबी-3--15,600--39,100/- + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में प्रथम निजी सहायक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री जे. पी. सिंह की नियुक्ति, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री (श्री सुल्तान अहमद) की पदावधि अथवा जब तक उनकी सेवाएं माननीय मंत्री अपेक्षित हैं, जो भी पहले हो, के साथ को-टर्मिनस होगी।

बी. एन. प्रसाद, अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. ए-60011/003/2009-डीजी--राष्ट्रपति, डॉ. सईद नसीम अहमद जैदी को दिनांक 24 नवम्बर, 2009 पूर्वाह्न से सचिव के रैंक तथा वेतनमान पर नागर विमानन मंत्रालय में महानिदेशक, नागर विमानन के रूप में नियुक्त करती है।

अशोक कुमार, अपर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. ईआरबी-I/2009/2/71--राष्ट्रपति, श्री बृज मोहन, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड को 17.12.2009 के पूर्वाह्न से 75,500--80,000/- रुपए के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करती है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव,
रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2010

सं. 01/2010 (मिसिल सं. ए-32013/1/2009-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत अभियन्ता (समूह-ख) सेवा के सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (श्रेणी-2)/सहायक अभियन्ता के श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत अभियन्ता (समूह-क) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान [सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (श्रेणी-1)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता] के श्रेणी में रु. 8,000-275-13,500/- के संशोधन पूर्व वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से स्थानापन्न रूप से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	वै. पी. कोहली	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती अनिता वर्मा	04.12.2009 (पूर्वाह्न)
3.	राकेश कुमार श्रोत्रिया	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
4.	दीपक शर्मा	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
5.	ए. सी. सुरेश	10.12.2009 (पूर्वाह्न)
6.	देवरूप सिंघ्वी	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
7.	सुनील कुमार गुप्ता	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
8.	के. शण्मुगन	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
9.	प्रसून कुमार डे	03.12.2009 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत अभियन्ता (समूह-क) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान [सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (श्रेणी-1)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता] के रूप में वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. 02/2010 (मि. सं. ए-38012/1/2008-प्रशा.एक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री बी. पी. शर्मा जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में उप निदेशक (इंजीनियरी) के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 दिसम्बर 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

सं. 3/3/2008-एमयूसी--राष्ट्रपति, श्री देबतोष सेनगुप्ता, उपनिदेशक, फोटो प्रभाग का निदेशक के पद पर चयन होने के अनुसरण में उन्हें 12,000--16,500/- रु. (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में निदेशक, फोटो प्रभाग (वर्ग "क" राजपत्रित) के रूप में दिनांक 11.11.2009 (पूर्वाह्न) से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियुक्त करती हैं।

शाम लाल, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 जनवरी 2010

सं. ए-38012/2/2009-प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर के.स.से. (सीएसएल संख्या 4713) के ग्रेड-I अधिकारी श्री ए. के. गुप्ता, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से दिनांक 31.12.2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

मुंबई-400022, दिनांक 4 जनवरी 2010

सं. 39/3/2009-स्था--सूचना का अधिकार अधिनियम (वर्ष 2005 सं. 22) की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 2(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्री जी. एम. ई. के. राज, निदेशक (सुरक्षा), डीजीफासली को (वर्तमान जन सूचना अधिकारी डॉ. ए. के. चक्रवर्ती, के दिनांक 1.1.2010 से महानिदेशक के पद पर पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप) "जन प्राधिकारी" अर्थात् डीजीफासली के संबंध में जन सूचना अधिकारी पदनामित किया जाता है। श्री जी. एम. ई. के. राज की अनुपस्थिति में श्री एच. विश्वनाथन, निदेशक (सुरक्षा) डीजीफासली केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्रयोजन से, डॉ. ए. के. चक्रवर्ती, महानिदेशक, डीजीफासली, मुंबई, वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

पी. एस. घोष, अवर सचिव व कार्यालयाध्यक्ष
कृते महानिदेशक

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 12th January 2010

No. RS.42/2/2010/3-Perl.—Consequent upon his being relieved from the post of Coach/Advisor to the Government of Afghanistan under the tripartite agreement (GOI-GOA-UNDP), for the Capacity for Afghan Public Service (CAP) Project, Shri Pradeep Chaturvedi, Joint Director has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 12th January, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 18th January 2010

No. RS/43(ix)/2005/4-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/43(ix)/2005/1-Perl. dated the 7th January, 2009, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU : 1990) as Director (Security) in this Secretariat for a period of one year w.e.f. 16th January, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st December 2009

No. PF-970-R(3)/GN-6359/AN-I/2009—On attaining the age of superannuation, Smt. Pushpa Batra, Director (PSS) has retired from service with effect from the afternoon of 31st December, 2009.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

No. PF-1320-R(3)/GN-6360/AN-I/2009—On attaining the age of superannuation, Sh. P. Mohanty, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31.12.2009.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

The 12th January 2010

No. F-22/1/GN-6365/2010/AN-I—The probation period of Shri Pawan Kumar Jha in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II has been extended for a period of one year with effect from 28.04.2009 upto 27.04.2010.

2. This is in continuation of Notification No. F. 15/7/GN-5889/AN-I/2007 dated 10th May, 2007.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-1, the 13th January 2010

No. A-19018/1/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Jain, IAS, (JK : 1978), as Additional Secretary in the Ministry of Statistics & Programme Implementation with effect from the afternoon of 4th January, 2010, until further orders.

RAM MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

Kolkata, the 31st December 2009

No. G-19013(2)/2009-Admn.(Kol.)—On attaining the age of superannuation Shri Pabitra Ranjan Banerjee, Assistant Legal Adviser in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Kolkata stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 31st December, 2009.

S. BHATTACHARYYA, Sr. Govt. Advocate and Incharge

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th November 2009

No. PF/G/213-Ad.V—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Babu Aniyeri as Director (OL) on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 09.11.2009(FN) in the Department of Official Language in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/-.

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 15th January 2010

No. 14034/27/2009-OL(Trg.)—The President is pleased to appoint Shri Yashwant Mathe as Assistant Director (Hindi Typing/Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, in the Pay Band-III of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 30.11.2009.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

No. 14034/27/2009-OL(Trg.)—The President is pleased to appoint Shri Ghanshyam Prasad Namdev as Assistant Director (Hindi Typing/Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of

Home Affairs, in the Pay Band-III of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 09.11.2009.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

No. 14034/27/2009-OL(Trg.)—The President is pleased to appoint Shri Vikram Soni as Assistant Director (Hindi Typing/Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, in the Pay Band-III of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 06.11.2009.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

No. 14034/27/2009-OL(Trg.)—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sahu as Assistant Director (Hindi Typing/Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, in the Pay Band-III of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the afternoon of 24.11.2009.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 14th January 2010

No. 13/29/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Joginder Paul Sharma, IAS(UP : 81) as Joint Secretary, in the Ministry of Development of North Eastern Region in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10000/- for a period upto 10.01.2012 or until further orders whichever is earlier, with effect from 12.01.2010(F.N.).

ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th January 2010

No. 13017/15/2009-AIS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of West Bengal and Punjab the Central Government hereby transfers Ms. Neelima, IAS (WB : 08) from West Bengal cadre to Punjab cadre on the ground of marriage to Shri Amit Kumar, IAS (PB : 08).

R. K. GUPTA, Under Secy.

STAFF SELECTION COMMISSION

New Delhi-110003, the 11th January 2010

No. A. 24012/2/2009-Estt.I.—Consequent upon the inclusion of their names in the Select List of Selection Grade of Central Secretariat Service (Deputy Secretary Grade) for the years 2005 & 2007 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 7th January, 2009 and No. 4/1/2009-CS.I(D) dated 5th October, 2009 & 30th October, 2009 the President of India is pleased to appoint the following Under Secretaries of CSS Cadre, as Selection Grade Officers of CSS (Deputy Secretary) on regular basis :—

S. No.	Name of the Officer	Select List of Selection Grade	Date of Assumption of charge
1.	Shri Satish Chander Sharma	2005	01.09.2009 (FN)
2.	Shri Shiv Kumar	2007	13.10.2009 (FN)
3.	Shri A. K. Sharma	2007	30.10.2009 (FN)

2. These officers shall be entitled to fixation of their pay under FR-22(1)(a)(i) w.e.f. the date of taking over the charge of Deputy Secretary on regular basis. However, the officers are eligible for notional fixation of pay w.e.f. 1st July of the Select List year.

R. K. GAMBHIR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 11th January 2010

No. 01/PA-II/2010—Consequent upon inclusion of the name of Dr. P. K. Choudhary, Legal Officer(Grade-I) in the Legal and Treaties Division, Ministry of External Affairs, in the select list for promotion to the grade of Director(L&T), President is pleased to appoint Dr. P. K. Choudhary as Director (L&T) in the Legal and Treaties Division of Ministry of External Affairs in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- Grade Pay with effect from forenoon of 6th October, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Deputy Secy.

The 12th January 2010

No. 02/PA-II/2010—Consequent upon inclusion of the name of Sh. Luther Mark Rangregi, Legal Officer (Grade-II) in the Legal and Treaties Division, Ministry of External Affairs in the select list for promotion to the grade of Legal Officer (Grade-I), President is pleased to appoint Sh. Luther Mark Rangregi as Legal Officer (Grade-I) in the Legal and Treaties Division of Ministry of External Affairs in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- Grade Pay with effect from forenoon of 6th October, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Deputy Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi-110021, the 2nd December 2009

No. A. 19011/8/2006-PA.—The President is pleased to appoint Shri K. V. Unnikrishnan, as Additional Private Secretary to the Minister of Overseas Indian Affairs (Shri Vayalar Ravi) w.e.f. 05th June, 2009(FN). The appointment of Shri K. V. Unnikrishnan will be at the level of Under Secretary till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place earlier.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

No. A. 19011/8/2006-PA.—The President is pleased to appoint Shri P. J. Thampi, as Assistant Private Secretary to the Minister of Overseas Indian Affairs (Shri Vayalar Ravi) w.e.f. 05th June, 2009(FN). The appointment of Shri P. J. Thampi will be at the level of Personal Assistant till he ceases to function as Assistant Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place earlier.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

No. A. 19011/8/2006-PA.—The President is pleased to appoint Shri A. Y. Anand Raj, as Additional Private Secretary to the Minister of Overseas Indian Affairs (Shri Vayalar Ravi) w.e.f. 09th June, 2009(FN). The appointment of Shri A. Y. Anand Raj will be at the level of Private Secretary till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place earlier.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

No. A. 19011/01/2009-PA.—The President is pleased to appoint Smt. Sadhna Sankar, IRS (IT : 87) as Private Secretary to the Minister of Overseas Indian Affairs (Shri Vayalar Ravi) w.e.f. 05th June, 2009(AN). The appointment of Smt. Sadhna Sankar will be at the level of Director for a period of 4 years 4 months and 10 days from the date of taking over the charge of the post or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place earlier.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

No. A. 19011/01/2009-PA.—The President is pleased to appoint Shri V. N. Ajayappan, as Assistant Private Secretary to the Minister of Overseas Indian Affairs (Shri Vayalar Ravi) w.e.f. 05th June, 2009(FN). The appointment of Shri V. N. Ajayappan, a non-service personnel as Assistant Private Secretary to the Minister for MOIA (Shri Vayalar Ravi) will be

at the discretion of and co-terminus with the Minister or until further orders, whichever event takes place earlier.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th January 2010

No. 1/2010 (F. No. A. 19011/1/2010-Ad 1C).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Gaule, Commissioner of Central Excise and Service Tax, as Member (Technical) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Kolkata with effect from 30.12.2009 (forenoon) till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 12th January 2010

No. A. 12011/8/2009-Admn.II.—Consequent upon inclusion in the Select List of Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) circulated vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint the following officers of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Grade I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of the Select List year corresponding to their name and until further orders :—

Sl No.	Name	CSL No.	Select List year
	S/Shri		
i)	Chanan Ram	5185	2004
ii)	Satish Kumar Bhusan	5186	2004
iii)	Soumya Chattopadhyay	4645-A	2005
iv)	A. K. Srivastava	5257	2005
v)	O. P. Kanojia	6224	2005
vi)	Anurag Rohatgi	5470-A	2007

2. The inter-se seniority of abovementioned officers in Grade I (Under Secretary) of CSS will follow the serial order given in the Select List, irrespective of their actual date of appointment to that Grade. The appointment of officers included in the aforesaid Select List, to the Grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UOI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 15th January 2010

No. A. 12011/2/2009-Admn.II.—Consequent upon inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2005 vide Department of Personnel & Training O.M. No. 4/4/2009-CS.I(D) dated 20.11.2009, and in partial modification of this Department's Notification of even number dated 19.02.2009, the President is pleased to appoint Shri Pran Kumar Sharma, (CSL No. 3715), Deputy Secretary (Retd.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of 2005 and until further orders.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th January 2010

No. 11012/1/2008-IES.—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2008 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the pay of Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/-, Under Rule 6(a) of the IES Rules 2008, as amended, on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names:—

No.	Name of the Officer	Date of Joining
1.	Shri Abinash Dash	04.01.2010 (F/N)
2.	Shri Jitendra Asati	04.01.2010 (F/N)
3.	Shri Gaurav Bhatia	04.01.2010 (F/N)
4.	Shri Shelesh Nawal	04.01.2010 (F/N)
5.	Ms. Puja Rustagi	04.01.2010 (F/N)
6.	Shri Karanjit Singh Nangbam	04.01.2010 (F/N)
7.	Shri Mudit Saxena	04.01.2010 (F/N)
8.	Ms. Ritika Narula	04.01.2010 (F/N)
9.	Ms. Renu Yadav	04.01.2010 (F/N)
10.	Shri Mukesh Kumar	04.01.2010 (F/N)
11.	Shri Sanjeev Kumar	04.01.2010 (F/N)
12.	Shri Jagdish Kumar	04.01.2010 (F/N)
13.	Shri Songeireng Khupboi Aimol	04.01.2010 (F/N)
14.	Ms. Monika Singh	04.01.2010 (F/N)

RAJAN KUMAR, Adviser (IES)

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi-110003, the 31st December 2009

No. A-2/AKP/99-SIU—Shri A. K. Puri, Deputy Director, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Staff

Inspection Unit stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2009.

2. His name will be struck off from the rolls of this Unit from that date.

B. L. SHARMA, Dy. Director (Admn.)

New Delhi, the 7th January 2010

No. A-12026/3/2003-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri S. Mohan (ICoAS : 91), Director (Cost) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Finance Commission Division), in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) on deputation basis with effect from the forenoon of the 23rd December, 2009 initially for a period of one year upto the afternoon of the 22nd December, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 17th December 2009

No. 31 (A-19011/19/2007-E.I.)—The President is pleased to appoint Sh. R. Gopalan, IAS (TN : 76) presently Additional Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry as Special Secretary on in-situ elevation in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry by temporarily upgrading the post held by him with effect from the forenoon of 24th November, 2009 until further orders.

ANURAG SAXENA, Director

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 6th January 2010

No. A-23011/4/2007-HR-II—The President is pleased to appoint Shri A. K. Chandwani as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of CSSS for the Select List Year 2008 on regular basis in the Fertilizers Cadre w.e.f. 30.12.2009 (FN) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 7,600/-.

2. This is in pursuance of Department of Personnel & Training (DOPT)'s instructions contained in O.M. No. 5/8/2009-CS. II, dated 22.07.2009 and Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP), Ministry of Information & Broadcasting's O.O. No. A-19011/2/2005-Admn. I, dated 29.12.2009.

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 15th January 2010

No. A-12011/10/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Grade-I Under Secretary of CSS for the year 2007 vide Department of Personnel & Training's O.M. No 5/8/2009-CS. I (U) dated 7th January, 2010, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries of CSS of this Department as Under Secretary of CSS on regular basis against the Select List Year 2007 in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 1st July, 2007 :—

Sl. No.	CSL No.	Name
1.	5782	Smt. Prema Bhatt
2.	5826	Shri Kishan Pal

2. The above appointment, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 12th January 2010

No. A-19013/01/2008-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of CSS Select List for the year 2009 and promotion as Director of CSS on regular basis vide Department of Personnel & Training Order No. 4/1/2009-CS. I (D) dated 16.12.2009, the President is pleased to appoint Shri Madhu Sudan Chopra, Deputy Secretary as Director by personal upgradation of the post of Deputy Secretary with effect from the forenoon of 16th December, 2009 upto the date of his superannuation i.e. 31.03.2010 in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000) with Grade Pay of Rs. 8,700/-. Thereafter the post will be operated at Deputy Secretary level.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd December 2009

No. A-11014/01/2008-CHS. IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. D. C. Jain to the post of Special Director General Health Services (Medical Education) of Central Health Service w.e.f. the forenoon of the 25.11.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-11014/01/2008-CHS. IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shiv Lal to the post of Special Director General Health Services (Public Health) of Central Health Service w.e.f. the forenoon of the 25.11.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 14th January 2010

No. A-12025/35/2006-CHS. III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Guruaribam Sunil Kumar Sharma to the post of Assistant Professor in the specialty of Forensic Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation for one year, with effect from the afternoon of the 26.05.2007 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 18th January 2010

No. A-12025/22/09-CHS. III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Durga Karki to the post of Assistant Professor in the specialty of Plastic Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 5.10.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/23/09-CHS. III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil Sharma to the post of Assistant Professor in the specialty of Plastic Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.11.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi, the 5th January 2010

No. A-19014/13/2007-Estt. I—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (DS) Select List of CSS for the year 2007, the President is pleased to appoint Shri N. Sathyan, as Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare on regular basis w.e.f. the forenoon of 16th December, 2009. The appointment of Shri N. Sathyan as Deputy Secretary has been made by personal upgradation on one post of Under Secretary in the Department of Health & Family Welfare to the level of Deputy Secretary upto the date of his superannuation.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 12th January 2010

No. A-19012/10/2007-EA.—The President is pleased to appoint Shri Anjan Kumar Jena, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Adviser, in the Commission for Agricultural Costs and Price, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 11th December, 2009.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/1/2010-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Harita Sabharwal, a Junior Administrative Grade (JAG) level officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Joint Director, in the Commission for Agricultural Costs and Price, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 17th December, 2009.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/2/2010-EA.—The President is pleased to appoint Shri B. Gangaiah, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 10th December, 2009.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/3/2010-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Swarn Sharma, a Junior Time Scale (JTS) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Research Officer, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 27th November, 2009 on ad-hoc basis.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 14th January 2010

CORRIGENDUM

No. A-19012/2/2010-EA.—In the Notification No. A-19012/2/2010-EA dated 12th January, 2010 of Department of Agriculture & Cooperation on appointment of Shri B.

Gangaiah, Adviser, Directorate of Economics & Statistics, the Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) may be read as Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

F. No. A-19012/4/2010-EA.—The President is pleased to appoint Shri Badri Singh Bhandari, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 16th November, 2009.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 1st January 2010

No. 2(20)/2009-Pers. I.—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint on promotion Shri V. P. Singh, Tradesman 'F' of Department of Information Technology as Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB' in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the forenoon of 01.12.2009 subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 15th January 2010

No. PF/4733/NIC/2009-Adm. I.—Shri Vijay Anand R., Scientist 'C', Emp. Code : 4733, National Informatics Centre Hqrs., New Delhi has expired on 18.10.2009.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm. I)

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110001, the 22nd December 2009

No. A-35018/08/2009-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri J. P. Singh, Inspector in the Central Excise Commissionerate as 1st PA in the office of the Hon'ble Minister of State for Tourism (Shri Sultan Ahmed) in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 4,800/- (GP) on deputation basis w.e.f. 02.07.2009 (FN).

2. The appointment of Shri J. P. Singh will be co-terminus with the terms of Hon'ble Minister of State

co-terminus with the terms of Hon'ble Minister of State for Tourism or till his services are required by Hon'ble Minister whichever is earlier.

B. N. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th January 2010

No. A-60011/003/2009-DG—The President is pleased to appoint Dr. Syed Nasim Ahmed Zaidi, as Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation in the rank and pay of Secretary with effect from forenoon of 24th November, 2009.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th January 2010

No. ERB-I/2009/2/71—The President is pleased to appoint Shri Braj Mohan, HAG/IRTS, Adviser (Commercial)/Railway Board as Additional Member (Commercial), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 17.12.2009.

K. B. L. MITTAL, Secretary
Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 13th January 2010

No. 01/2010 (F. No. A-32013/1/2009-Adm. I)—The President is pleased to appoint the following officers of the grade of Assistant Director (Engineering) (Grade-II)/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service, to the Junior Time Scale of the Central Power Engineering (Group A) Service (Assistant Director [Engineering] Grade-I/Assistant Executive Engineer), in the Pre-revised Scale of Pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	Y. P. Kohli	03.12.2009 (FN)
2.	Smt. Anita Verma	04.12.2009 (FN)
3.	Rakesh Kumar Srotriya	03.12.2009 (FN)
4.	Deepak Sharma	03.12.2009 (FN)
5.	A. C. Suresh	10.12.2009 (FN)
6.	Devroop Singhvi	03.12.2009 (FN)

1	2	3
	S/Shri	
7.	Sunit Kumar Gupta	03.12.2009 (FN)
8.	K. Shanmughan	03.12.2009 (FN)
9.	Prasun Kumar De	03.12.2009 (FN)

2. The abovementioned officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of their appointment to the Junior Time Scale of the Central Power Engineering (Group A) Service [Assistant Director (Engineering) Grade-I/Assistant Executive Engineer].

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 14th January 2010

No. 02/2010 (F. No. A-38012/1/2008-Adm. I)—Shri B. P. Sharma, Deputy Director (Engineering) Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st December, 2009, on attaining the age of superannuation.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th December 2009

No. 3/3/2008-MUC—Consequent upon his selection to the post of Director, the President is pleased to appoint Shri Debatoosh Sengupta, Deputy Director, Photo Division, as Director, Photo Division in the Ministry of Information & Broadcasting (Group 'A' Gazetted) in the Pay Scale of Rs. 12,000—16,500/- (pre-revised) with effect from the forenoon of 11.11.2009.

SHAM LAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st January 2010

No. A-38012/2/2009-Adm. I—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Gupta, a Grade-I Officer of CSS (CSL No. 4713) working as Under Secretary in the Ministry of Labour & Employment has retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31.12.2009.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES

Mumbai-22, the 4th January 2010

No. 39/3/2009-Estt.—In exercise of powers conferred under section 5(1) read with section 2(c) of the Right to

Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (D.G.F.A.S.L.I.), Ministry of Labour & Employment designate Shri G.M.E.K. Raj, Director (Safety), D.G.F.A.S.L.I., as Central Public Information Officer (as Dr. A. K. Chakrabarti the present Central Public Information Officer has been promoted as Director General w.e.f. 01.01.2010) in respect of the 'Public Authority' namely, the D.G.F.A.S.L.I., Mumbai. In the absence

of Shri G.M.E.K. Raj, Sh. H. Vishvanathan, Director (Safety), D.G.F.A.S.L.I., will act as Central Public Information Officer.

Dr. A. K. Chakrabarti, Director General, D.G.F.A.S.L.I., Mumbai shall be the senior officer for the purpose of section 19(1) of the said Act.

P. S. GHOSH, Under Secy. & HOO
for Director General